



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

बुधवार, 20 जनवरी, 2021 / 30 पौष, 1942

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

*Shimla-2, the 16th January, 2021*

**No. 64/MCMB**—In exercise of the powers conferred under section 125, 126, 127 and 128 read with section 202 and 214 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, I, Varsha Executive Officer, Municipal Council Mehatpur-Basdehra, District Una, Himachal Pradesh is pleased to notify the following Bye-laws:—

**1. Short title, extent and commencement.**—(i) These Bye-Laws may be called the Municipal Council Mehatpur-Basdehra (Grant of License for Use of Premises and Storage of Articles in Premises) Bye-Laws 2020.

(ii) These Bye-Laws shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(iii) These Bye Laws shall apply to all shops/premises falling within the limits of Municipal Council Mehatpur-Basdehra, which may not be used without license for the purpose specified in Section 125, 126, 127 and 128 read with section 202 and 214 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 as per Annexure-I and II for use and storage of any article in a premises within the Municipal limits.

**2. Definitions.**—In these Bye-Laws, unless the context otherwise requires:—

- (a) “Acts” means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 12 of 1994).
- (b) “Authorized Officer” means Executive Officer or any other Officer duly authorized by the Executive Officer.
- (c) “Inspector” means Sanitary Inspector or any other Official of the Municipal Council duly authorized by the Executive Officer.
- (d) “License” means a written permission granted by the Executive Officer or any other official/Officer duly authorized by the Executive Officer in favour of the person, owner & occupier for sale/storage of articles specified in Annexure-I and II of these bye-laws.
- (e) “Licensing Officer” means Executive Officer or any other officer duly authorized by the Executive Officer to grant/ renew License under the provisions of these Bye-Laws.
- (f) “premises”, means any shop/store/place where the articles specified in Annexure-I and II of these bye-laws are kept for sale/storage in the godown/premises.
- (g) “Shopkeeper” means any person running and managing the affairs of the shop/premises/place including its owner/occupier.
- (h) The words and expression not defined under these Bye-Laws shall have the same meaning or sense as are defined in Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

**3. Procedure for obtaining License.**—(a) A person who wants to operate/run any business/trade as specified in Annexure-II within the areas of the Municipal Council shall apply for license on prescribed Form-A online to Executive Officer of the Municipal Council of the concerned Municipal Council.

(b) *Period of License.*—(1) The License shall be issued for a period maximum upto fifteen years at a time and the license shall automatically come to an end after completion of such period.

**4. Renewal of License.**—(i) The License shall be renewed automatically after expiry of the period of license on deposit of requisite/prescribed license fee by the applicant. The license shall be renewed without any late fee and extra document within one month of expiry of license. The license shall be renewed with penalty of 50% of license fee within next month and after that period the license shall not be renewed. In that case a fresh Trade License shall be required to be issued.

(ii) No document is required to be submitted for renewal of License.

**5. Transfer of License.**—(i) The License issued under these Bye-Laws shall not be transferred in the name of any person except in case of the death of original licensee wherein it shall be made/transferred in the name of the legal heirs only for the validity of the license on production of supporting documents and shall be decided by Executive Officer keeping in view the circumstances of the case.

(ii) The licensee shall provide online information to the Executive Officer for winding up of his business under such license;

**6. License Fee.**—(i) The license fee for grant of license shall be decided by the Executive Officer from time to time. However, the fee will be calculated on annual license fee rate multiply by number of years the license is requested by the applicant. The fee shall be charged on the following manner:—

Sl. No.	Scale of business	License Period			
		Yearly	5 yearly	10 yearly	15 yearly
1.	Large scale business/trade	500/-	2000/-	3500/-	6500/-
2.	Medium scale business/trade	200/-	800/-	1400/-	2600/-
3.	Small scale business/trade	100/-	400/-	700/-	1300/-

In the fairs, fee shall be charged on the following rates:—

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| (a) Large Shop  | Rs. 100/- P. Day |
| (b) Medium Shop | Rs. 50/- P. Day  |
| (b) Small Shop  | Rs. 25/- P. Day  |

**Explanation.**—A shop covering an area upto 6 square meters shall be deemed to be a small shop.

**7. Conditions for grant of license.**—(i) The License shall not be valid for any other purpose, except for the items/articles for which it is granted under these bye-laws.

(ii) The permission shall, unless specified otherwise in the license, be valid in the entire MC limits, subject to such conditions as may be imposed by the Executive Officer.

(iii) The owner/occupier of the premises shall have to produce the license before the Inspector or the licensing officer at any point of time as may be ordered by them.

(iv) The Executive Officer shall have a right to impose or alter any of conditions in the license as may be deemed fit by the Executive Officer under the provisions of Section 214 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

(v) The applicant shall submit a self declaration regarding information submitted by him / her about the premises to be used for business/trade viz. type of business, area, approval of map and nature of property i.e. commercial and domestic etc. to be true to the best of his knowledge and belief.

(vi) The licensee shall maintain proper record of the articles kept for sale or storage in the premises as may be required by the Licensing Officer. Further the licensee shall comply with all the directions and instructions issued to him by the Executive Officer or the Licensing Officer from time to time.

(vii) The licensee will ensure timely payment of Municipal dues.

(viii) *Time period for issue of license.*—The license shall be issued as per the time lines notified/specified for this service under the Public Service Guarantee Act, 2011.

**8. Denial of license.**—(1) The license shall not be granted:—

- (a) to a person suffering from any loathsome infections or contagious diseases:
- (b) to a person convicted for unlawful sale or storage of any articles mentioned in Section 125, 126, 127 and 128 read with Section 202 and 214 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994,
- (c) to a person who has been found to have habitually committed the breach of these Bye-Laws or the terms of the license.
- (d) to a person not below the age of 18 years.

(2) (a) Subject to Bye-Laws 8(1), license to any person, who applies in writing to the Executive Officer or Licensing Officer in this behalf and tenders the prescribed fee shall be granted by that officer, unless for reasons to be recorded in writing by him, he considers the applicant not a fit person for grant of such a license.

(b) The Licensee shall be liable to pay transfer charges @ 200/- per license at the time of effecting transfer of License in addition to the License fee.

(c) The licensee shall abide by the terms and conditions of the license and the license shall be displayed at the convenient place/reception of the premises.

(d) The Inspector or inspecting staff concerned shall have a right to inspect the premises at any time and the licensee shall provide necessary assistance to the inspecting staff at the time of inspection of licensed premises.

(e) The licensee shall not make any encroachment/overhanging projection on public streets and Municipal drains in any manner.

**9. Offences and penalties.**—(i) In addition to the penalty as provided under Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 any person in possession of the premises found violating any of the provisions of these Bye-Laws shall in the first instance be liable for suspension of license for a period of one week and for next instance of violation be liable for penalty of Rs. 1000/- only.

(ii) If the information submitted by the applicant under self declaration is found to be false, he/she shall be liable for the penalty of ten times of the license fee and his/her license will be cancelled.

(iii) In case of repeated violation the concerned person, owner or occupier, as the case may be shall be liable for cancellation/withdrawal of License which can only be restored or receiving written undertaking accompanied by surety from the person violating these Bye-laws subject to the satisfaction of the Executive Officer.

By order,  
Sd/-  
Executive Officer,  
Municipal Council Mehatpur-Basdehra,  
District Una, Himachal Pradesh.

**Purposes to which premises may not be used without a license :**

1. Banking
2. Cinematograph films, shooting of.
3. Cinematograph film by any process whatsoever, Treating of.
4. Chillies or masala or seeds, grinding of by mechanical means.
5. Cloth, Yarn or leather in indigo or in other colours, dyeing or printing of.
6. Cloth, or yarn-bleaching.
7. Keeping of an eating house or a catering establishment.
8. Grain, parching
9. Ground nut seeds, tamarind seeds or any other seeds, parching.
10. Keeping of hair dressing saloon or a barber's shop.
11. Hides or skins, whether raw or dried tanning, pressing or packing.
12. Keeping a laundry shop.
13. Leather goods, manufacturing or by mechanical means.
14. Keeping of a Litho Press.
15. Keeping of a lodging house.
16. Metal casting
17. Precious metals, refining of or recovering of them from embroideries.
18. Keeping of a Printing Press.
19. Keeping a sweetmeats shop except in premises already licensed as an eating house.
20. Keeping a tailoring shop.
21. Carrying on the trade or business of or any operation connected with the trade of –
  - (i) Autocar or autocycle servicing or repairing.
  - (ii) Blacksmithy.
  - (iii) Coppersmithy.
  - (iv) Electroplating
  - (v) Glass bevelling

- (vi) Glass cutting
- (vii) Glass polishing
- (viii) Goldsmithy.
- (ix) Marble cutting, grinding, dressing or polishing
- (x) Metal (ferrous or non-ferrous or antimony but excluding precious metal) cutting or treating metal by hammering drilling, pressing, filling, polishing, heating or by any other process whatever or assembling parts of metal.
- (xi) Photography-Studio.
- (xii) Radio (wireless receiving set ) selling, repairing, servicing or manufacturing.
- (xiii) Silversmithy.
- (xiv) Spinning or weaving cotton silk, art silk, or jute or wool with the aid of power.
- (xv) Stone grinding, cutting, dressing or polishing.
- (xvi) Timber or wood sawing or cutting, by mechanical or electric power.
- (xvii) Tinsmithy.
- (xviii) Washerman's trade.
- (xix) Welding of metal by electric, gas or any process whatsoever.

22. Manufacturing, parching, packing, pressing, cleaning, cleansing, boiling, moulting, grinding or preparing by any process whatever any of the following articles.—

- (i) Aerated waters.
- (ii) Bakelite goods.
- (iii) Bidis (indigenous cigarettes) snuff, cigars or cigarettes.
- (iv) Bitumen.
- (v) Blasting powder.
- (vi) Bones.
- (vii) Bricks or tiles by hand power.
- (viii) Bricks or tiles by mechanical power.
- (ix) Brushes.
- (x) Candles.
- (xi) Catgut.

- 
- (xii) Celluloid or celluloid goods.
- (xiii) Cement concrete designs or models.
- (xiv) Charcoal.
- (xv) Chemicals.
- (xvi) Cinematograph films stripping in connection with any trade.
- (xvii) Cosmetics or toilet goods.
- (xviii) Cotton, cotton refuse, cotton waste, cotton yarn, silk, silk yarn, silk inclusive of waste yarn, art silk, art silk waste, art silk yarn, wool or woollen refuse or waste.
- (xix) Cotton seeds.
- (xx) Dampmar.
- (xxi) Dynamite.
- (xxii) Fat.
- (xxiii) Fireworks.
- (xxiv) Flax.
- (xxv) Ink for printing, writing, stamping etc.
- (xxvi) Gas.
- (xxvii) Ghee.
- (xxviii) Glass or glass articles.
- (xxix) Gunpowder.
- (xxx) Hemp.
- (xxxi) Ice (including dry Ice).
- (xxxii) Insecticide or disinfectants.
- (xxxiii) Leather, cloth or rexin cloth or water proof cloth.
- (xxxiv) Lime.
- (xxxv) Linseed oil.
- (xxxvi) Matches for lighting (including Bengal matches).
- (xxxvii) Mattresses and pillows.
- (xxxviii) Offal.

- 
- (xxxix) Oil-cloth.
  - (xli) Oil other than petroleum (either by mechanical power or by hand power or ghani driven by bullock or any other animal).
  - (xlii) Pharmaceutical or medical products.
  - (xliv) Rubber or rubber goods.
  - (xlv) Paints.
  - (xlvii) Paper or cardboard,
  - (xlviii) Pickers from hides.
  - (xli) Pitch.
  - (xlvii) Plastic goods.
  - (xlviii) Pottery by hand power.
  - (xlix) Pottery by mechanical or any power other than hand power.
  - (l) Sanitary-ware or china-ware.
  - (li) Soap.
  - (lii) Sugar.
  - (liii) Sweetmeat and confectionery goods.
  - (liv) Tallow.
  - (lv) Tar.
  - (lvi) Varnishes.
  - (lvii) Wooden furniture, boxes, barrels, khokas or other articles of wood or of plywood or of sandal wood.
- 

## ANNEXURE -II

**ARTICLE WHICH MAY NOT BE STORED IN ANY PREMISES WITHOUT A LICENCE**

1. Asafootida.
2. Ashes.
3. Bamboos.
4. Bidi or Bidi leaves
5. Blasting powder.



- 
6. Blood.
  7. Bones, bone meal or bone powder.
  8. Camphor.
  9. Carbide of calcium.
  10. Cardboard.
  11. Celluloid or celluloid goods.
  12. Cement.
  13. Charcoal.
  14. Chemical liquid.
  15. Chemicals, non-liquid.
  16. Chillies.
  17. Chlorate mixture.
  18. Cinematograph films—non-inflammable or acetate or safety base.
  19. Cloth in pressed bales or boras.
  20. Cloth or clothes of cotton, wool, silk, art silk etc.
  21. Coal.
  22. Coconut fibre.
  23. Coke.
  24. Compound gas, such as oxygen gas, hydrogen gas, nitrogen gas, carbondioxide gas, sulphur dioxide gas, chlorine gas, acetyalom gas etc.
  25. Copra.
  26. Cosmetics and toilet needs.
  27. Cotton including kahok, surgical cotton and silky cotton.
  28. Cotton refuse or waste or cotton yarn refuse or waste.
  29. Cotton seed.
  30. Detonaters.
  31. Dry leaves.
  32. Dynamite.

33. Explosive paint such as nitrocellulose paint, lacquer paint, enamel paint etc.
34. Fat.
35. Felt.
36. Fins.
37. Fire wood.
38. Fire-works.
39. Fish (dried).
40. Flax.
41. Fulminate.
42. Fulminate of mercury.
43. Fulminate of silver.
44. Golatino.
45. Gollignite
46. Grass.
47. Gun-cotton.
48. Gun-powder.
49. Gunny Bags.
50. Hair.
51. Hay or fodder.
52. Hemp.
53. Hessian cloth (gunny bag cloth).
54. Hides (dried).
55. Hides (raw).
56. Hoofs.
57. Horns.
58. Incense or eses.
59. Jute.

- 
60. Khokas, boxes, barrels, furniture or any other article of wood.
  61. Lacquer.
  62. Leather, leather cloth, raxine cloth and water proof cloth.
  63. Matches for lighting (including Bengal matches).
  64. Mathylated spirit, denatured spirit or french polish.
  65. Nitro-cellulose.
  66. Nitro-compound.
  67. Nitro-glycerine.
  68. Nitro-mixture.
  69. Offal.
  70. Oil, other than petroleum.
  71. Oilseeds including almonds, but excluding cotton-seeds.
  72. Old paper or waste paper including old newspapers, periodicals magazines, etc.
  73. Packing stuff (paper cutting).
  74. Paints.
  75. Paper other than old paper in pressed bales or loose or in reams.
  76. Petroleum, other than dangerous petroleum, as defined in the Petroleum Act, 1934.
  77. Phosphorous.
  78. Pharmaceutical or medical goods.
  79. Photostat, cyclostyling, typing and printing machines.
  80. Plastic or Plastic goods.
  81. Plywood.
  82. Rags, including small pieces or cutting of cloth, hessian cloth, gunny bag cloth, silk, art silk or woollen cloth.
  83. Resin or dammer Battar otherwise known as Ral.
  84. Rubber and rubber goods.
  85. Safety fuses, feg signals, cartridges etc.
  86. Saltpetre.

87. Sandal wood.
88. Sanitary-ware, hardware and other articles made of iron, iron-sheets, pipes, iron angles and G.I. Pipes.
89. Shoes including leather, PVC Canvas rubber and plastic shoes.
90. Silk waste or silk yarn waste, art silk waste or art silk yarn waste.
91. Sisal fibre
92. Skins (raw or dried).
93. Straw.
94. Sulphur.
95. Tallow.
96. Tar, ditch, dammor or bitumen.
97. Tarphlin.
98. Thinner.
99. Timber.
100. Turpentine, Utensils, Crockery, China and earthen-ware, aluminium ware, stainless steel and iron goods.
101. Varnish.
102. Wool (raw).
103. Yarn other than waste yarn.

---

**MUNICIPAL COUNCIL OFFICE RAMPUR, HIMACHAL PRADESH**

**NOTIFICATION**

*Rampur, the 15th December, 2020*

**No.MCR/Trade License/2020-3599-3600.**—In exercise of the powers conferred under Section 125,126,127,128 read with section 202 and 214 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and as conformed by the Municipal 'Council, Rampur Bushahr *vide* its Special Meeting Resolution No. 266 dated 09-12-2020, I, **Hari Singh Sharma**, Executive Officer Municipal Council, Rampur, Distt. Shimla, Himachal Pradesh hereby notify the following Bye-laws:—

**1. Short title, extent and commencement.**—(i) These Bye-Laws may be called the Himachal Pradesh Municipality (**Grant of License for Use of Premises and Storage of Articles in Premises**) Bye-Laws-2020.

(ii) These Bye-Laws shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(iii) These Bye-Laws shall apply to all shops/premises falling within the Municipal limits which may not be used without license for the purpose specified in section 125,126,127,128 read with section 202 and 214 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 as per Annexure-I and Annexure-II for storage of any Article within the municipal limits.

**2. Definitions.**—In these Bye-Laws, unless the context otherwise requires:—

- (a) “Act” means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 12 of 1994);
- (b) “Authorized Officer” means Executive Officer or any other Officer specifically authorized by the Executive Officer;
- (c) “Inspector” means Sanitary Inspector or any other Official of the Municipal Council duly authorized by the Executive Officer;
- (d) “License” means a written permission granted by the Executive Officer or any other official /officer duly authorized by the Executive Officer in favour of the person, owner & occupier for sale/storage of articles specified in Annexure-I &II of these Bye-Laws;
- (e) “Licensing Officer” means Executive Officer or any other officer duly authorized by the Executive Officer to grant/ renew License under the provisions of these Bye-Laws;
- (f) “Premises”, means any shop/store/place where the articles specified in Annexure-I &II are kept for sale/storage in the godown/ premises;
- (g) “Small Scale Business/Trade” means premises covering maximum area of 100 Sq.ft, “Medium Scale Business/Trade” means premises covering area of 100 Sq.ft. to 500 Sq.ft. and “Large Scale Business/Trade” means premises covering area of more than 500 Sq.ft.
- (h) “Shopkeeper” means any person running and managing the affairs of the shop/premises/place including its owner/occupier.
- (i) The words and expression not defined under these Bye-Laws shall have the same meaning or sense as are defined in Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

**3. Procedure for obtaining License:**—(a) Any person who wants to operate/run any business/trade as specified in Annexure-I and/or store any article as specified in Annexure-II within the areas of the Municipal Council shall apply for license on prescribed Form-A online to Executive Officer of the concerned Municipal Council.

(b) *Period of License.*—The License shall be issued for a period maximum upto fifteen years at a time and the License shall automatically come to an end after completion of such period.

**4. Renewal of License.**—(i) The License shall be renewed automatically after expiry of the period of license on deposit of requisite/prescribed license fee by the applicant. The license

shall be renewed without any late fee and extra document within one month after expiry of license. The license shall be renewed with penalty of 50% of license fee within next one month and after that period the license shall not be renewed. In that case a fresh Trade license shall be required to be issued.

(ii) No document is required to be submitted for renewal of License.

**5. Transfer of License.**—(i) The License issued under the Bye-laws shall not be transferred in the name of any person except in case of the death of original licensee wherein it shall be made/transferred in the name of the legal heirs only for the validity period of license on production of supporting documents and shall be decided by Executive Officer keeping in view the circumstances of the case.

(ii) The licensee shall provide online information to the Executive Officer for winding up of his business under such license.

**6. License Fee.**—(i) The license fee for grant of license shall be decided by the Executive Officer from time to time. However, the fee will be calculated on annual license fee rate multiplied by number of years the license is requested by the applicant. The fee shall be charged in the following manner:—

Sl. No.	Scale of business	License period			
		Yearly	5 yearly	10 yearly	15 yearly
1.	Small scale business/trade	100/-	400/-	700/-	1300/-
2.	Medium scale business/trade	200/-	800/-	1400/-	2600/-
3.	Large scale business/trade	500/-	2000/-	3500/-	6500/-

In the fairs, fee shall be charged on the following rates:—

(a) Small Shop	Rs. 25/- Per Day
(b) Medium Shop	Rs. 50/- Per Day
(c) Large Shop	Rs. 100/- Per Day

**Explanation:**—A shop covering an area up to 6 square meters shall be deemed to be a small shop.

(ii) Fee structure for permission for Shooting of films / Documentaries in Mcs/ NPs;—

Big Budget Films/Movies (Films above Rs. 75.00 Crores)	Big Budget Films/ Movies (Films above Rs. 5.00 Crores upto Rs. 75.00 Crores )	Big Budget Films /Movies TV Serials/Musical Albums/ Advertisements (Films upto Rs 5.00 Crores )
Rs. 70,000/- day	Rs. 30,000/ day	Rs. 15000/day

**6. Conditions for grant of license.**—(i) The License shall not be valid for any other purpose, except for the items/articles for which it is granted under these Bye-laws.

(ii) The permission shall, unless specified otherwise in the license, be valid in the entire MC limits, subject to such conditions as may be imposed by the Executive Officer.

(iii) The owner/occupier of the premises shall have to produce the license before the Inspector or the licensing officer at any point of time as may be ordered by them.

(iv) The Executive Officer shall have a right to impose or alter any of conditions in the license as may be deemed fit by him/her under the provisions of Section 214 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

(v) The applicant shall submit a self declaration regarding information submitted by him/her about the premises to be used for business/trade viz. type of business, area, approval of map and nature of property i.e. commercial and domestic etc. to be true the best of his knowledge and belief.

(vi) The licensee shall maintain proper record of the articles kept for sale or storage in the premises as may be required by the Licensing Officer. Further the licensee shall comply with all the directions and instructions issued to him by the Executive Officer or the Licensing Officer from time to time.

(vii) The licensee will ensure timely payment of Municipal dues.

(viii) *Time period for issue of License*.—The license shall be issued as per the time lines notified/specified for this service under Public Service Guarantee Act, 2011.

**7. Denial of license.**—(1) The license shall not be granted:

- (a) to a person suffering from any loathsome infections or contagious diseases;
- (b) to a person convicted for unlawful sale or storage of any articles mentioned in Section 125, 126, 127, 128 read with section 202 and 214 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 to a person who has been found to have habitually committed the breach of these Bye-Laws or the terms of the license;

(c) to a person not below the age of 18 years.

(2) (a) Subject to Bye-Laws 9(1), license to any person, who applies online to the Executive Officer or Licensing Officer in this behalf and tenders the prescribed fee shall be granted by that officer, unless for reasons to be recorded in writing by him.

(b) The Licensee shall be liable to pay transfer charges @ 200/- per license at the time of effecting transfer of License.

(c) The licensee shall abide by the terms and conditions of the license and the license shall be displayed at the convenient/conspicuous place/reception of the premises.

(d) The Inspector or inspecting staff concerned shall have a right to enter and inspect the premises and the licensee shall provide necessary assistance to the inspecting staff at the time of inspection of licensed premises.

(e) The licensee shall not make any encroachment/overhanging projection on public streets and municipal drains in any manner.

**8. Offences and penalties.**—(i) In addition to the penalty as provided under Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 any person in possession of the premises found violating any of the provisions of these Bye-Laws shall in the first instance be liable for suspension of license for a

period of one week and for repetition of the same violation within two years be liable for penalty of Rs. 1000/- only.

(ii) If the information submitted by the applicant under self declaration is found to be false, he/she shall be liable for the penalty of ten times of the license fee and his/her license will be cancelled.

(iii) In case of repeated violation the concerned person, owner or occupier, as the case may be shall be liable for cancellation/withdrawal of License which can only be restored or receiving written undertaking accompanied by surety from the person violating these Bye- laws subject to the satisfaction of the Executive Officer.

By order,  
Sd/-  
Executive Officer,  
Municipal Council Rampur,  
Himachal Pradesh.

ANNEXURE-I

**Purposes to which premises may not be used without a license:**

1. Banking.
  2. Cinematograph films, shooting of.
  3. Cinematograph film by any process whatsoever, treating of.
  4. Chilies or masala or seeds, Grinding of by mechanical means.
  5. Cloth, yarn or leather in indigo or in other colors, dyeing or printing of.
  6. Cloth or yarn bleaching.
  7. Keeping of an eating house or a catering establishment.
  8. Grain, parching.
  9. Ground nut seeds, tamarind seeds or any other seeds, parching.
  10. Keeping of hair dressing saloon or a barber's shop.
  11. Hides or skins, whether raw or dried tanning, pressing or packing.
  12. Keeping a laundry shop.
  13. Leather goods, manufacturing or by mechanical means.
  14. Keeping of a litho press.
  15. Keeping of a lodging house.
  16. Metal casting.
  17. Precious metals, Refining of or recovering of them from embroideries.
  18. Keeping of printing press.
  19. Keeping a sweetmeats shop except in premises already licensed as an eating house.
  20. Keeping a tailoring shop.
- Carrying on the trade or business of or any operation connected with the trade of –
- (i) Auto car or autocycle servicing or repairing.
  - (ii) Black smithy.
  - (iii) Copper smithy.
  - (iv) Electroplating.
  - (v) Glass beveling.
  - (vi) Glass cutting.
  - (vii) Glass polishing.



- (viii) Gold smithy.
- (ix) Marble cutting, grinding, dressing or polishing
- (x) Metal (ferrous or non-ferrous or antimony but excluding precious metal) cutting or treating metal by hammering drilling, pressing, filling, polishing, heating or by any other process whatever or assembling parts of metal.
- (xi) Photography-Studio.
- (xii) Radio (wireless receiving set) selling, repairing, servicing or manufacturing.
- (xiii) Silver smithy.
- (xiv) Spinning or weaving cotton silk, art silk, or jute or wool with the aid of power.
- (xv) Stone grinding, cutting, dressing or polishing.
- (xvi) Timber or wood sawing or cutting, by mechanical or electric power.
- (xvii) Tin smithy.
- (xviii) Washer man's trade.
- (ix) Welding of metal be electric, gas or any process whatsoever.

22. Manufacturing, parching, packing, pressing, cleaning, cleansing, boiling, molting, grinding or preparing by any process whatever any of the following articles—

- (i) Aerated waters.
- (ii) Bakelite goods.
- (iii) Bidis (indigenous cigarettes) snuff, cigars or cigarettes.
- (iv) Bitumen.
- (v) Blasting power.
- (vi) Bones.
- (vii) Bricks or tiles by hand power.
- (viii) Bricks or tiles by mechanical power.
- (ix) Brushes.
- (x) Candles.
- (xi) Catgut.
- (xii) Celluloid or celluloid goods.
- (xiii) Cement concrete designs or models.
- (xiv) Charcoal.
- (xv) Chemicals.
- (xvi) Cinematograph films stripping in connection with any trade.
- (xvii) Cosmetics or toilet goods.
- (xviii) Cotton, cotton refuse, cotton waste, cotton yarn, silk, silk yarn, silk inclusive of waste yarn, art silk, art silk waste, art silk yarn, wool or woollen refuse or waste.
- (xix) Cotton seeds.
- (xx) Dammar.
- (xxi) Dynamite.
- (xxii) Fat.
- (xxiii) Fireworks.
- (xxiv) Flax.
- (xxv) Ink for printing, writing, stamping etc.
- (xxvi) Gas.
- (xxvii) Ghee.
- (xxviii) Glass or glass articles.
- (xxix) Gunpowder.
- (xxx) Hemp.
- (xxxi) Ice (including dry Ice).
- (xxxii) Insecticide or disinfectants.

- (xxxiii) Leather, cloth or rexin cloth or water proof cloth.
- (xxxiv) Lime.
- (xxxv) Linseed oil.
- (xxxvi) Matches for lighting (including bengal matches).  
Mattresses and pillows.
- (xxxvii) Offal. Oil-cloth.
- (xxxviii) Oil other than petroleum (either by mechanical power or by hand power or ghani driven by bullock or any other animal).
- (xxxix) Pharmaceutical or medical products.
- (xl) Rubber or rubber goods.
- (xli) Paints.
- (xlii) Paper or cardboard.
- (xliii) Pickers from hides.
- (xliv) Pitch.
- (xlv) Plastic goods.
- (xlvi) Pottery by hand power.
- (xlvii) Pottery by mechanical or any power other than hand power.
- (xlviii) Sanitary-ware or china-ware.
- (xlix) Soap.
- (l) Sugar.
- (li) Sweetmeat and confectionery goods.
- (lii) Tallow.
- (liii) Tar.
- (liv) Varnishes.
- (lv) Wooden furniture, boxes, barrels, khokas or other articles of wood or of plywood or of sandal wood.

## ANNEXURE-II

**ARTICLE WHICH MAY NOT BE STORED IN ANY PREMISES WITHOUT A LICENSE**

1. Assfootida
2. Ashes
3. Bamboos
4. Bidi or Bidi leaves
5. Blasting powder.
6. Blood.
7. Bones, bone meal or bone powder.
8. Camphor.
9. Carbide of calcium.
10. Cardboard.
11. Celluloid or celluloid goods.
12. Cement.
13. Charcoal.
14. Chemical liquid.
15. Chemicals, non-liquid.
16. Chillies.
17. Chlorate mixture.
18. Cinematograph films-non-inflammable or acetate or safety base.
19. Cloth in pressed bales or boras.
20. Cloth or clothes of cotton, wool, silk, art silk etc.
21. Coal.

22. Coconut fibre.
23. Coke.
24. Compound gas, such as oxygen gas, hydrogen gas, nitrogen gas, carbon dioxide gas, sulphur dioxide gas, chlorine gas, acetylene gas etc.
25. Copra.
26. Cosmetics and toilet needs.
27. Cotton including kahok, surgical cotton and silky cotton.
28. Cotton refuse or waste or cotton yarn refuse or waste.
29. Cotton seed.
30. Detonators.
31. Dry leaves.
32. Dynamite.
33. Explosive paint such as nitrocellulose paint, lacquer paint, enamel paint etc.
34. Fat.
35. Felt.
36. Fins.
37. Fire wood.
38. Fire-works
39. Fish (dried).
40. Flax.
41. Fulminate.
42. Fulminate of mercury.
43. Fulminate of silver.
44. Gollatino.
45. Gollignite.
46. Grass.
47. Gun-cotton.
48. Gun-powder.
49. Gunny bags.
50. Hair.
51. Hay or fodder.
52. Hemp
53. Hessian cloth (gunny bag cloth).
54. Hides (dried).
55. Hides (raw)
56. Hoofs.
57. Horns.
58. Incense or eses.
59. Jute.
60. Khokas, boxes, barrels, furniture or any other article of wood.
61. Lacquer.
62. Leather, leather cloth, raxine cloth and water proof cloth.
63. Matches for lighting (including Bengal matches).
64. Mentholated spirit, denatured spirit or French polish.
65. Nitro-cellulose.
66. Nitro-compound.
67. Nitro-glycerin.
68. Nitro-mixture.
69. Offal.
70. Oil, other than petroleum.
71. Oilseeds including almonds, but excluding cotton-seeds.
72. Old paper or waste paper including old newspapers, periodicals magazines, etc.

73. Packing stuff (paper cutting).
74. Paints.
75. Paper other than old paper in pressed bales or loose or in reams.
76. Petroleum, as defined in the Petroleum Act, 1934.
77. Phosphorous.
78. Pharmaceutical or medical goods.
79. Photostat, cyclostyling, typing and printing machines.
80. Plastic or plastic goods.
81. Plywood.
82. Rags, including small pieces or cutting of cloth, hessian cloth, gunny bag cloth, silk, art silk or woolen cloth.
83. Resin or dammar Batter other wise known as Ral.
84. Rubber and rubber goods.
85. Safety fuses, feg signals, cartridges etc.
86. Saltpeter.
87. Sandal wood.
88. Sanitary-ware, hardware and other articles made of iron, iron-sheets, pipes, iron angles and G.I. Pipes.
89. Shoes including leather, PVC Canvas rubber and plastic shoes.
90. Silk waste or silk yarn waste, art silk waste or art silk yarn waste.
91. Sisal fiber.
92. Skins (raw or dried).
93. Straw.
94. Sculpture.
95. Tallow.
96. Tar, ditch, dammar or bitumen.
97. Trepine.
98. Thinner.
99. Timber.
100. Turpentine, utensils, crockery, china and earthen-ware, aluminum ware, stainless steel and iron goods.
101. Varnish.
102. Wool (raw).
103. Yarn other than waste yarn

**Form-A, प्रपत्र—अ**

**Application Form for Trade License/व्यवसाय लाईसेंस के लिए आवेदन पत्र  
(under H.P. Municipal Act, 1994 (हि०प्र० नगरपालिका अधिनियम 1994 के तहत))**

1.	Applicant information/आवेदक का ब्योरा:	
	Name / नाम:	
	Father/Husband Name/पिता / पति का नाम:	
	Pan Card No./पैन कार्ड नं०	
	Aadhaar No./आधार नं०:	
2.	Applicant Residential Address/Number/आवेदक का स्थायी पता:	
	Building Name/Number /मकान का नाम / नं०:	

	Street Name/ गली का नाम:	
	District/ जिला:	
	City/शहर:	
	Pin/ पिन :	
3.	Applicant contact details /आवेदक के सम्पर्क का विवरण:	
	Email/ ई-मेल:	
4.	Trade Address (where applicant want to start business)/व्यवसाय का पता (जहां आवेदक व्यवसाय शुरू करना चाहता है)	
	Building name/number/ इमारत का नाम/ नं०:	
	Street Name/ गली का नाम:	
	Ward No./ वार्ड नं० :	
	Ward Name/ वार्ड का नाम:	
	Name of ULB/ शहरी स्थानीय निकाय का नाम:	
	District/ जिला:	
	Pin/ पिन:	
5.	Trade Contact Details:	
	Email./ ई-मेल:	
	Mobile No./ मोबाईल नं०:	
6.	Trade Category/ व्यवसाय वर्ग: (Annexure-I and Annexure-II)/ (अनुबन्ध-I व अनुबन्ध-II):	
7.	Nature of Business/ व्यवसाय का प्रकार/ किस्म:	
	Business details (Brief description)/व्यवसाय का विवरण (संक्षिप्त विवरण):	
	No. of Year(s) license is required (Max. 15 years)/ लाइसेंस की अवधि (अधिकतम 15 वर्ष):	
	Whether Map is approved (Yes/No) नक्शा स्वीकृति (हां/ नहीं)	
	If yes, map approved as (Residential or Commercial) यदि हां, नक्शा स्वीकृति ;आवासीय/ व्यवसायिक):	
8.	Business/Trade Registration No./ व्यापार/ व्यवसाय रजिस्ट्रेशन नं०:	

**Declaration**

घोषणा-पत्र:

I..... s/o, d/o, w/o .....  
resident of .....

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवास  
इस बात की पूरी do hereby solemnly affirm and declare that the information submitted by me for तरह से पुष्टि करता/करती हूं तथा घोषित करता/करती हूं कि व्यवसाय लाइसेंस प्राप्त करने acquiring Trade License is true and correct to the best of my knowledge and belief. के लिए मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

If any information submitted by me is found incorrect/misleading at any stage, then यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना किसी भी स्तर पर गलत या भ्रमिक पायी गयी, तो मैं कानूनी I will be liable for legal action. कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा/होंगी।

(Signature of the Applicant)  
(आवेदक के हस्ताक्षर)

**Form for Renewal of Trade License**

<b>Existing License No.</b>		
Name of Licensee		
Nature of Business/Trade		
Date of Issue		
Date of Expiry		
Period of Renewal of license		

**Form for Transfer of License**

<b>Existing License No.</b>		
Name of original Licensee		
Nature of Business/Trade		
Date of death of original Licensee		
Name of applicant to whom license to be transferred		
Period of Renewal of license		
Detail of attached supporting documents.		

**Information to be provided for winding up of Business/Trade**

I,.....s/o, d/o.....resident of  
 .....hereby inform in  
 advance that I shall be winding up my Business/trade registered under registration No.....  
 and trade license No. with effect from .....

*Signature of applicant.*

**OFFICE OF MUNICIPAL COUNCIL RAMPUR**  
 कार्यालय नगर परिषद रामपुर  
**TEHSIL RAMPUR MIMACHAL PRADESH**  
 तहसील रामपुर हिमाचल प्रदेश  
**TRADE LICENSE**  
 व्यवसाय लाईसेंस

**LICENSE No. ....**  
 लाईसेंस संख्या -----

**Dated: \_\_\_\_\_**  
 दिनांक-----

This Trade License is being issued by the Municipal Council Rampur, यह व्यवसाय लाईसेंस नगरपरिषद रामपुर, जिला शिमला District Shimla H.P. under Section 125, 126, 127, 128, 202 and 214 of the Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 125, 126, 127, 128, 202 तथा 214 Municipal Act, 1994 in favour of Sh./ Ms./ Smt. ....s/o, d/o, h/o, w/o के अन्तर्गत श्री/कुमारी/श्रीमती सुपुत्र/सुपुत्री/पति/पत्नी

Sh..... to run/store .....Trade under following conditions:—

को ..... व्यवसाय करने हेतु निम्न शर्तों पर जारी किया जा रहा है:—

- I. This license will be valid for ..... period. इस लाईसेंस की अवधि..... वर्ष तक मान्य होगी।
- II. The licensee shall have to produce this license before authorized inspection इस लाईसेंस को लाईसेंस निरीक्षण हेतु अधिकृत किये गये नगरपरिषद officer/official by M.C. for inspection. अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित करना होगा।
- III. If license want to wind-up his/her trade/business, he/she shall give this यदि कोई भी व्यक्ति अपना कारोबार बंद करना चाहता है, तो इसकी information immediately prior to such wind-up. सूचना तुरन्त नगरपरिषद को दें।

The license issued shall only be valid for Trade/Storage of articles listed as यह प्रमाण पत्र केवल Bye-Laws में सम्मिलित अनुबन्ध-I एवं II में दर्शाये गए Annexure-I and II in the Bye-Laws. व्यवसाय/संग्रह मदों के लिए मान्य होगा।

**Executive Officer,**  
कार्यकारी अधिकारी,  
Municipal Council, Rampur,  
नगरपरिषद रामपुर,  
District Shimla H.P.  
जिला शिमला, हि0प्र0।

### ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री हरबंस सिंह सुपुत्र श्री मोती राम, निवासी गांव डंगाडी, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम हरबंस सिंह है, जोकि ग्राम पंचायत तारागढ़ के नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल डंगाडी में गलती से हंस राज दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 05-02-2021 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
(ज्ञान चन्द),  
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,  
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री कृष्ण लाल सुपुत्र श्री फैंका राम, निवासी गांव कुडेरा, डाकघर घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम कृष्ण लाल है, जोकि ग्राम पंचायत घटासनी के नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल कुडेरा में गलती से किशन सिंह दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 05-02-2021 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
(ज्ञान चन्द),  
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,  
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री जोध सिंह सुपुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव द्रबडी, डाकघर तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।



उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम जोध सिंह है, जोकि ग्राम पंचायत तुनुहट्टी के नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल डंगाडी व रौणी में गलती से क्रमशः योदा सिंह व जोधा सिंह दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 05-02-2021 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
(ज्ञान चन्द),  
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,  
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

#### ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री राजमल सुपुत्र श्री निकू, निवासी गांव व डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजमल है, जोकि ग्राम पंचायत नैनीखड के नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल सैल में गलती से राज कुमार दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 05-02-2021 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
(ज्ञान चन्द),  
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,  
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

#### ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री जोधा सुपुत्र श्री जन्तो, निवासी गांव सिखनू, डाकघर भराडी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम जोधा है, जोकि ग्राम पंचायत गडाना के नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल सिखनू में गलती से जोधा राम दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 05-02-2021 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
(ज्ञान चन्द),  
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,  
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

-----

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)**

Adil Insha s/o Shri Dildar Ali, resident of Mohalla Sapri, Chamba Town, Tehsil & Distt. Chamba, H.P. aged 33 years (Bridegroom/Husband).

and

Julie d/o Ganga Bahadur, resident of Mohalla Ramgarh, Chamba Town, Tehsil & Distt. Chamba, H.P., aged 32 years (Bride/Wife) . . Applicants.

*Versus*

The General Public

*Subject.—Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).*

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 08-12-2016 at their place of residence with prevailing rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the record of Municipal Council Chamba, Tehsil & Distt. Chamba, H.P. ;

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 23-01-2021 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 23rd Day of December, 2020.

Seal.

SHIVAM PRATAP SINGH (IAS),  
Sub-Divisional Magistrate,  
Chamba, District Chamba (H.P.).

---

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)**

Sunil Kumar s/o Shri Krishan Lal, resident of Mohalla Obri, P.O. Sultanpur, Tehsil & Distt. Chamba, H.P. aged 35 years (Bridegroom/Husband).

and

Saroj Kumari d/o Sh. Rajesh Kumar, resident of Village Dhabdein, P.O. Saru, Tehsil & Distt. Chamba, H.P., aged 27 years (Bride/Wife) . . Applicants.

*Versus*

The General Public

*Subject.— Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).*

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 24-10-2019 at their place of residence with prevailing rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the record of Municipal Council Chamba, Tehsil & Distt. Chamba, H.P. ;

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 31-01-2021 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 30th Day of December, 2020.

Seal.

SHIVAM PRATAP SINGH (IAS),  
Sub-Divisional Magistrate,  
Chamba, District Chamba (H.P.).

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)**

Gurmeet Singh s/o Shri Gurdev Singh, resident of Village Baloo, P.O. Sultanpur, Tehsil & Distt. Chamba, H.P. aged 26 years (Bridegroom/Husband).

and

Salta Kumari d/o Sh. Karam Chand, resident of Village Bainska, P.O. Mehla, Tehsil & Distt. Chamba, H.P., aged 23 years (Bride/Wife) . . Applicants.

*Versus*

The General Public

*Subject.— Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).*

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 06-03-2019 at their place of residence with prevailing rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the record of Municipal Council Chamba, Tehsil & Distt. Chamba, H.P.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 31-01-2021 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this of 30-12-2020.

Seal.

SHIVAM PRATAP SINGH (IAS),  
Sub-Divisional Magistrate,  
Chamba, District Chamba (H.P.).

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)**

Virender Singh Rana s/o Shri Tara Chand Rana, resident of near HRTC Workshop, Mohalla Tatwani, P.O. Chamba, Tehsil & Distt. Chamba, H.P. aged 30 years (Bridegroom/Husband).

and

Shaiby d/o Sh. Kamal Raj, resident of Mohalla Mai-Ka-Bagh, P.O. Sultanpur, Tehsil & Distt. Chamba, H.P., aged 23 years (Bride/Wife) . . Applicants.

*Versus*

The General Public

*Subject.— Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).*

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 28-07-2017 at their place of residence with prevailing rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the record of Municipal Council Chamba, Tehsil & Distt. Chamba, H.P. ;

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 31-01-2021 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 30-12-2020.

Seal.

SHIVAM PRATAP SINGH (IAS),  
Sub-Divisional Magistrate,  
Chamba, District Chamba (H.P.).

ब अदालत श्री ओंकार सिंह, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं० :

तारीख पेशी : 28-01-2021

बल्विंदर कुमार

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

प्रार्थी श्री बल्विंदर कुमार पुत्र श्री जोगिंदर पाल, निवासी गांव व डाकघर काठगढ़, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका विवाह पंचायत रिकार्ड में दर्ज न हुआ है। जिसे वह ग्राम पंचायत काठगढ़ में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विवाह दर्ज करवाने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-01-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में विवाह ग्राम पंचायत काठगढ़ के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—,  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री शाम स्वरूप, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भवारना,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं० : 2020

तारीख पेशी : 02-02-2021

श्रीमती ललिता देवी पुत्री हरबंस लाल, निवासी गांव व डाकघर खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थिया श्रीमती ललिता देवी पुत्री हरबंस लाल, निवासी गांव व डाकघर खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी, स्थानीय उप-पंजीकार ग्राम पंचायत खैरा, अतिरिक्त जिला पंजीकार, जन्म व मृत्यु कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जारी अपर्याप्तता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व विद्यालय प्रमाण-पत्र पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 20-12-1973 को गांव खैरा, ग्राम पंचायत खैरा में हुआ है। परन्तु अज्ञानता के कारण उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में नहीं करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत खैरा को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार अखबारी, राजपत्र हि0प्र0, मुन्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त ललिता देवी का जन्म दिनांक 20-12-1973 के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 02-02-2021 हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त की जन्म तिथि 20-12-1973 के पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत को पारित कर दिया जाएगा।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-12-2020 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 94/NT Chadhiar/2020

तारीख पेशी : 27-01-2021

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती

पूजा देवी पत्नी सुशील कुमार, निवासी गांव मन्दरेरा, डाकघर कोठी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के पति का नाम दुरुस्त करके सौंकी राम के बजाए सुशील कुमार दर्ज करने बारे।

पूजा देवी पत्नी सुशील कुमार, निवासी गांव मन्दरेरा, डाकघर कोठी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि महाल मन्दरेरा, उप-तहसील चढ़ियार में भू-स्वामी है, तथा राजस्व अभिलेख में उसके पति का नाम सौंकी राम दर्ज है, जबकि उसका असल नाम सुशील कुमार है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके सुशील कुमार किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-01-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 1-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी, चढ़ियार,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 98/NT Chadhiar/2020

तारीख पेशी : 27-01-2021

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती

संदीप राणा पुत्र जगन नाथ राणा, निवासी गांव व डाकघर दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करके संदीप पुत्र जगरनाथ के बजाए संदीप राणा पुत्र जगननाथ राणा दर्ज करने बारे।

प्रार्थी संदीप राणा पुत्र जगन नाथ राणा, निवासी गांव व डाकघर दरुग, उप—तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि महाल दरुग, उप—तहसील चढ़ियार में भू—स्वामी है, तथा राजस्व अभिलेख में उसका नाम संदीप पुत्र जगरनाथ दर्ज है, जबकि उनका असल नाम संदीप राणा पुत्र जगन नाथ राणा है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके संदीप राणा पुत्र जगन नाथ राणा किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-01-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असागतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना—पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी, चढ़ियार,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-----

ब अदालत स्वरूप लाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील लगडू,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 02/2019/NT.

तारीख पेशी : 29-01-2021

श्री रूप चन्द पुत्र श्री धनू, निवासी गांव ढाटी, परमाला मौजा हवडोल, उप—तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

... प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्त करवाने बारे।

श्री रूप चन्द पुत्र श्री धनू, निवासी गांव ढाटी, परमाला मौजा हवडोल, उप—तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसका असल नाम रूप चन्द है परन्तु पटवार वृत्त हवडोल—1 के मुहाल ढाटी, परमाला मौजा हवडोल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम गलती से रूप सिंह दर्ज कर दिया है। इसलिए राजस्व अभिलेख में उसका नाम दुरुस्त दर्ज किया जावे।

प्रार्थी का नाम दुरुस्ती प्रकरण इस न्यायालय मुकाम लगडू में सुनवाई हेतु दिनांक 29-01-2021 को निश्चित है जिसमें आम जनता का भी पक्ष सुना जायेगा। अतः सर्वसाधारण आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में रूप सिंह के



बजाये रूप सिंह उपनाम रूप चन्द दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 29-01-2021 को असाततन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/एतराज दर्ज करवा सकता है। दिनांक 29-01-2021 के उपरान्त इस बारे कोई भी आपत्ति/एतराज स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा महाल ढाटी, परमाला मौजा हवडोल के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम रूप सिंह के बजाये रूप सिंह उपनाम रूप चन्द दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिए जायेंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 30-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

(स्वरूप लाल),

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-----

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Nagrota Bagwan,  
District Kangra (H.P.)**

1. Sh. Navneet Kumar Joshi aged 29 years s/o Shri Prakash Chandra Joshi, r/o V.P.O. Pandeygoan Bhimtal, Distt. Nainital, Uttarakhand.

2. Samriti Dogra aged 29 years d/o Sh. Ravi Kant Dogra, r/o Ward No. 7, V.P.O. Hatwas, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).

*Versus*

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage

Applicants Sh. Navneet Kumar Joshi aged 29 years s/o Shri Prakash Chandra Joshi, r/o V.P.O. Pandeygoan Bhimtal, Distt. Nainital, Uttarakhand and Samriti Dogra aged 29 years d/o Sh. Ravi Kant Dogra, r/o Ward No. 7, V.P.O. Hatwas, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.) has filed an application under section 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 26-10-2020 at home V.P.O. Hatwas, W. No. 7, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra as per Hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person, who has any objection regarding this marriage, can file the objections personally or in writing before this court on or before 01-02-2021. The objection received after 01-02-2021, will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 01-01-2021 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,  
Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).*

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निचार स्थित भावानगर,  
जिला किन्नौर (हि0प्र0)**

नम्बर मुकद्दमा : 9/2020

तारीख रजुआ 19-09-2020

तारीख फैसला :

श्री किशोर कुमार पुत्र श्री बन्टी लाल, निवासी गांव व डा0 कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता गांव कटगांव

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री किशोर कुमार पुत्र श्री बन्टी लाल, निवासी गांव व डा0 कटगांव, तहसील निचार ने इस अदालत में मय शपथ-पत्र पेश किया है उसकी पुत्री कु0 कोमल का जन्म 01-07-2007 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कटगांव में नहीं किया गया है, अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत कटगांव में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-01-2021 तक या इससे पूर्व इस अदालत में आकर अपना एतराज/उजर पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत कटगांव को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील निचार स्थित भावानगर,  
जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

-----

**In the Court of Sh. Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar), Solan,  
District Solan (H. P.).**

In the matter of :

Smt. Kamlesh Devi Sharma w/o Shri Sudesh Kumar Sharma, r/o Sewa Kunj, Opp. JBT School Solan, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh  
..Applicant

Versus

General Public

..Respondent.

*Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

Smt. Kamlesh Devi Sharma w/o Shri Sudesh Kumar Sharma, r/o Sewa Kunj, Opp. JBT School Solan, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering the date of birth of his son namely Prateek Sharma s/o Shri Sudesh Kumar Sharma *i.e.* 08-01-1981 at home Sewa Kunj, Opp. JBT School Solan, Tehsil & District Solan but his date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of date of birth of Prateek Sharma s/o Shri Sudesh Kumar Sharma, r/o Sewa Kunj, Opp. JBT School Solan, Tehsil & District Solan may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 22-01-2021 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 23rd day of December, 2020.

Seal.

GURMIT G. NEGI,  
*Executive Magistrate (Tehsildar),  
Solan, District Solan (H. P.).*

\_\_\_\_\_

